

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2017
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
मालवीय भवन



मालवीय—भवन

मालवीय भवन, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के आदरणीय संस्थापक व स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों में से एक पं.



मदन मोहन मालवीय जी का पूर्व आवास होने के साथ-साथ विश्वविद्यालय-परिसर का मुख्य स्मारक भवन भी है और यह 1961 में मालवीय-शताब्दी वर्ष के अवसर पर जनसाधारण के दर्शन हेतु खोल दिया गया था। स्मारक होने के साथ ही मालवीय-भवन मालवीयजी की शिक्षा उनके विचारों, उनके अतिप्रिय विषयों की पढ़ाई और जीवन के ऊपर शोध-कार्य का दायित्व भी लेता है। आज मालवीय भवन में निम्नलिखित प्रकल्प कार्यरत हैं – 1. योग साधना केन्द्र 2. गीता-समिति

3. गीता-योग पुस्तकालय 4. सभागृह एवं 5. मालवीय-मूल्य अनुशीलन केन्द्र।

मालवीय भवन के सभागृह में विश्वविद्यालय के सभी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। यह सभागृह नियमित रूप से योग से सम्बंधित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, गीता, योग व मूल्य शिक्षा से सम्बद्ध व्याख्यानों तथा संगोष्ठियों के लिये उपयोग में लाया जाता है। विगत वर्ष मालवीय भवन के सभागृह में विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष पर्यन्त कार्यक्रम संपन्न हुए। यहां **गीता-समिति** प्रत्येक रविवार की सुबह भगवद्गीता के धार्मिक व दार्शनिक विषयों पर व्याख्यान का आयोजित करती है। यह समिति वार्षिक भगवद्गीता प्रवचन-प्रतियोगिता का आयोजन भी करती है। सम्प्रति प्रो० उपेन्द्र पाण्डेय जी मालवीय भवन, के मानित निदेशक एवं योग साधना केन्द्र के समन्वयक हैं।

योगसाधना-केन्द्र



काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का योग साधना केन्द्र 1975 फरवरी से कार्य कर रहा है। यह योग की शिक्षा, निर्देश और शोध कार्य की अन्तरानुशासनिक शैक्षणिक संस्था है और योग के क्षेत्र में विश्वविद्यालय-परिसर में होने वाली सभी गतिविधियों का केन्द्र बिन्दु है। डा0 के0 एम0 त्रिपाठी योग साधना केन्द्र के उपनिदेशक षारीरिक शिक्षा योग हैं। यहाँ दो तरह के पाठ्यक्रम संचालित होते हैं: 1. सर्टिफिकेट कोर्स इन योग एवं 2. डिप्लोमा इन योग। वर्तमान शैक्षिक सत्र में इन पाठ्यक्रमों में प्रतिभागियों की संख्या इस प्रकार रही है:

		पुरुष	महिला	विदेशी'	कुल
1.	सर्टिफिकेट कोर्स इन योग	1371	871	05	2247
2	डिप्लोमा इन योग	115	74	06	195

वर्तमान सत्र में दिनांक 21 जून को प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन से पूर्व **दो सप्ताह की प्रातःकालीन योग कार्यशाला** का आयोजन किया गया इसमें विश्वविद्यालय के 400 विद्यार्थियों एवं अध्यापकों ने भाग लिया। दिनांक **21 जून को प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस** के अवसर पर प्रातःकाल आयुष विभाग द्वारा अनुमोदित सामान्य योगाचार क्रम का मालवीय भवन पार्श्ववर्ती शस्योद्यानों में समवेत अभ्यास हुआ है जिसमें विश्वविद्यालय के लगभग 500 विद्यार्थियों, अध्यापकों अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया है।



International Yoga Day- 2017

Malaviya Bhawan, Banaras Hindu University

Programme on 21 June, 2017

- 6.30---8.00 A.M. _____ Collective Yoga Practice of Common Yoga Protocol
Led by Dr. Yogeas Kumar Bhatt & Sri Kush Kumar Pandey
- 8.00 _____ Tea, hosted by Coordinator, N. S. S., BHU
- 8.30---9.30 A.M. ---- Demonstration of Yoga-Practice
in the Malaviya Bhawan Assemby Hall
- 10.10---12.30 A.M----Commemoration of International Yoga Day 2017 &
Prize Distribution in Prof. K. N. Udupa Auditorium, IMS, BHU
- 12.30 ---- High Tea

The committee to organize the **INTERNATIONAL YOGA DAY on June 21st 2017**

1.	The Vice-Chancellor	Chief Patron
2.	Pro. R.H. Singh, Distinguished Professor Department of Kayachikitsha,IMS,	Patron
3.	Pro. Upendra Pandey, Hony. Director, Malviya Bhavan	Chairman
4.	The Dean of Student,	Member
5.	The Chief Proctor,	Member
6	1. Dr. K. M. Tripathi, Dy. Director, Yoga Centre 2. Prof. M.M. Tripathi	Organizing Secretary